

प्रारूप आरजी - 2
Form RG - 2



भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry

क्रमांक
No. 2767797

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4810008

दिनांक / Date 06/01/2021

ज. संख्या / J. No. 1984

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह
के बारे में दिनांक नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-
YOUTAG INFOTECH PRIVATE LIMITED, PLOT NO. 23A GAGAN VIHAR HARNATH PURA, JHOTWARA JAIPUR JAIPUR RJ 302012 IN, THE
TRADEMARK ACT - 1999, (Body Incorporate)

In Class 35 Under No. 4810008 as of the date 06 January 2021 in respect of

Goods and service as annexed

Trade Mark as annexed

मेरे निर्देश पर आज के मास के वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई

Sealed at my direction, this 12th day of June, 2021



व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से १० वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह १० वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक १० वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अग्रिमपत्र करने के लिए नहीं है।

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामील के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरंत किया जाना चाहिए।

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should **AT ONCE** be made to register the change.



Class	Goods Description
35	<p>Providing customer incentive award programs; Promoting the sale of goods and services of others by means of contests and incentive award programs; Promoting the goods and services of others through the administration of sales and promotional incentive schemes involving trading stamps; Organization of loyalty and incentive schemes; Administration of sales promotion incentive programs; Administration of loyalty and incentive schemes; Administration of customer loyalty and incentive schemes; Administration of sales and promotional incentive schemes; Promoting the goods and services of others on the Internet; Promoting the sale of goods and services of others by means of contests and incentive award programs; Providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; Provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; Administration of incentive award programs to promote the sale of the goods and services of others; Information, advisory and consultancy services relating to business management and business administration provided online or via the Internet; On-line retail store services featuring computer software; Computerized online retail store services; Retail store services featuring computer software; On-line retail store services featuring computer software; Online advertising; Online advertising on computer communication networks; Advertising the goods and services of online vendors via a searchable online guide; Business management; Promoting the goods and services of others by distributing advertising materials through a variety of methods; Computerized on-line ordering services; Providing business information via global computer networks; Business administration services for the processing of sales made on a global computer network; Database management services; Advertising services; Online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies; Promotion of entertainment events; Promotion of goods and services through sponsorship of entertainment events; Market research; Business marketing services; Business management services regarding marketing activities and launching of new products; Consultancy relating to personnel recruitment;</p>